

COURTESY: RAVI KUMAR/ASSOCIATED PRESS OF BANGALORE

(From left) Jeevash Bogchi,
Monica Norula and Shashikant
Sengar

356.80	356.81
	34,953.63
0.62	25.02
0.62	23.62

ed by the Audit Committee and
018 and have been subjected toance with the recognition and
tified under Section 133 of the
g Standards) Rules, 2015 as
Limited ("the Company"), its
int operations and its share in
accordance with Ind AS-110 –
sociates and Joint Ventures'.

June 30, 2018 are available on

Company shall remain closed from Tuesday, August 28, 2018 to Thursday, August 30, 2018 (both days inclusive) for determining the eligibility of shareholders for payment of dividend on equity shares. The dividend, if declared at the forthcoming Annual General Meeting of the Company (scheduled to be held at the Registered Office of the Company at Gadepan, District Kota, Rajasthan, PIN - 325 208 at 1030 Hours on Tuesday, September 18, 2018), will be paid to those Members whose names appear in the Company's Register of Members as on Thursday, August 30, 2018 (after giving effect to all valid share transfer documents lodged with the Company on or before Monday, August 27, 2018) or in the statements of beneficial ownership furnished by the Depositories as at the end of business on Monday, August 27, 2018.

For Chambal Fertilisers and Chemicals Limited

Rajveer Singh
Vice President – Legal & Secretary

PNB Finance and Industries Ltd.

Corporate Identity Number : L65929DL1947PLC001240

Regd. Office: 1st Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002
Phone :- 011-39843340/41, E-Mail- pnbfinanceindustries@gmail.com, Website - www.pnbfinanceandindustries.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2018

(Rs. in Lakh)

Particulars	Standalone		
	Quarter Ended 30.06.2018 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2018 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2017 (Unaudited)
Total Income from Operations	-	-	-
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	166.11	1231.79	862.33
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	296.66	1231.79	862.33
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	271.73	1034.23	685.93
Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]*	271.73	1034.23	685.93
Equity Share Capital	320.00	320.00	320.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet of previous year		8413.52	
Earnings Per Share (for continuing operations) (of Rs. 10/- each)			
1. Basic (In Rs.)	8.49	32.32	21.44
2. Diluted (In Rs.)	8.49	32.32	21.44

Note :

1. The above Financial Results for the quarter ended June 30, 2018 have been reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors at their respective meetings held on August 10, 2018.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results of the Company are available on the website of the Company and has also been sent to The Calcutta Stock Exchange Limited on 10th August, 2018.
3. Previous period figures have been regrouped/rearranged wherever necessary to confirm to current period's presentation.
It comprises only Net Profit for the period after tax as the Company is not required to comply with Ind AS and report Total Comprehensive Income.

By Order of the Board of Directors
for PNB Finance and Industries LimitedSd/-
Rakesh Dhamani
Director
DIN:07065199Place : New Delhi
Date : August 10, 2018

Jitendra

